



1-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 गिरफ्तार, थाना बिलारी:-

अवगत कराना है दिनांक 04-01-2023 को व0उ0नि0 श्री रामनरेश यादव थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त सुनील पुत्र भागीरथ सिंह निवासी ग्राम ढकिया नरु थाना बिलारी, मुरादाबाद को एक अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-09/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

2-दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना भगतपुर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 25-11-2022 को वादिनी निवासी थाना भगतपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी को दहेज के लिये प्रताड़ित करने, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने व ननदोई द्वारा छेड़छाड़ करने के संबंध में थाना भगतपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0-239/2022 धारा 498A/377/354/323/504/506 भा0द0वि0 व धारा 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 05-01-2023 को उ0नि0 श्री सतेन्द्र शर्मा थाना भगतपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त विष्णु सैनी पुत्र मुन्नू सैनी निवासी ग्राम ढकिया गुलाबो टाण्डा उज्जैन थाना टाण्डा, रामपुर को गिरफ्तार किया गया।

3-मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना भगतपुर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 01-01-2023 को वादी देवेन्द्र सिंह पुत्र सूरजपाल निवासी ग्राम चक कचनाल थाना भगतपुर, मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के बेटे को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के संबंध में थाना भगतपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भगतपुर पर मु0अ0सं0-02/2023 धारा-323/324/307 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 05-01-2023 को उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना भगतपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त सुमित पुत्र सुनेपाल निवासी ग्राम चक कचनाल थाना भगतपुर, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

4-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 गिरफ्तार, थाना मैनाठेर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 05-01-2023 को उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त विपिन पुत्र राम कुंवर निवासी ग्राम इमरतपुर उधौ थाना मैनाठेर, मुरादाबाद को एक अवैध तमंचा व 02 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-05/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

5-अवैध कच्ची शराब के साथ 04 गिरफ्तार, थाना कोतवाली नगर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 04-01-2023 की रात्रि को उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह, म0उ0नि0 सीमा खोखर व उ0नि0 श्री अर्जुन सिंह थाना कोतवाली नगर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के क्रमशः अभियुक्त 1- राकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री किशनलाल निवासी कोठीवाल नगर थाना कोतवाली नगर, मुरादाबाद को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2-राजीव कुमार पुत्र स्व0 किशनलाल निवासी कोठीवाल नगर थाना कोतवाली नगर, मुरादाबाद को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 3-ललित शर्मा पुत्र श्री मुन्नालाल निवासी अली रजापुर पोस्ट फरेदी कुन्दरकी, मुरादाबाद को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 4- रविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिराज सिंह निवासी जोगीठेर अलीगंज, बरेली को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर क्रमशः मु0अ0सं0-03/2023 मु0अ0सं0-04/2023 व मु0अ0सं0- 05/2023, मु0अ0सं0- 06/2023 धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किये गये।

प्रेसनोट थाना मझोला जनपद मुरादाबाद दिनांक 05-01-2023

चेन स्नैचर को चोरी की बाइक R-15,स्नैचिंग किये 01-01 हार तथा चैन(पीली धातु) ,अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस सहित थाना मझोला पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के आदेशानुसार चेन स्नैचिंग/छीनेती,चोरी/वाहन चोरी, लूट की घटनायें कारित करने वाले शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन्स के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मझोला पुलिस टीम द्वारा दिनांक 04.01.2023 की रात्रि में अभियुक्त गुफरान उर्फ गुफ्फी को बाईक R15 नीले रंग,01 अवैध तमंचा 12 बोर,01 जिंदा कारतूस,01 गले के हार (पीली धातु),01 चेन (पीली धातु) सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचा व कारतूस की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त गुफरान उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-10/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

विवरण पूछताछ-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि जो 01 गले का हार (पीली धातु) व बायीं जेब 01 चैन (पीली धातु) तथा 335/- रुपये बरामद हुए हैं। इनमें सोने का हार करीब 25-30 दिन पहले दिल्ली रोड पर एक शादी हाल के बाहर से एक महिला के गले से छीना था तथा सोने की चेन को अपने साथी अरुण गुण्डा के साथ मिलकर अब से करीब 04 महीने पहले सेंट मेरी स्कूल के पीछे से एक महिला के गले से छीनी थी। बरामद बाइक के संबंध में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि R1-5 रजि0 न0 DL3SEC1174 को मैंने कुछ

महीने पहले दिल्ली से चोरी किया था। इसी मोटरसाईकिल से मैंने दिल्ली रोड पर एक महिला के गले से हार छीना था। आज इन ज्वेलरी को मुरादाबाद में बिक्री के लिए ला रहा था। चेकिंग के दौरान मैं पकड़ा गया। अवैध तमंचा व कारतूस को वह हमेशा चेन छीनेती/लूट करने के लिए साथ रखता हूं। वर्तमान में अभियुक्त अरुण गुंडा जेल में निरुद्ध है। अभियुक्त से अन्य पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुफरान उर्फ गुफ्फी पुत्र मौ० इकराम निवासी मोहल्ला हिन्दुपुरा खेड़ा थाना नखासा जनपद सम्भला

बरामदगी-

01 गले का हार (पीली धातु) का

01 चैन (पीली धातु)

01 मोटरसाइकिल R1-5 नीले रंग रजि०न० DL3SEC1174

01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिंदा कारतूस 12 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

मु०असं० 512/2016 धारा 392/411 भा०द०वि थाना सिविल लाइन मुरादाबाद

मु०असं०260/2016 धारा 392/411 भा०द०वि थाना सिविल लाइन मुरादाबाद

मु०असं०588/2016 धारा 392/411 भा०द०वि थाना सिविल लाइन मुरादाबाद

मु०असं० 629/2016 धारा 392/411 भा०द०वि थाना सिविल लाइन मुरादाबाद

मु०असं० 459/2016 धारा 392/411 भा०द०वि थाना मझोला मुरादाबाद

मु०असं० 1151/2022 धारा 379/411 भा०द०वि थाना मझोला मुरादाबाद

मु०असं० 01/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कटघर मुरादाबाद

मु०असं० 01/2022 धारा 379/411 थाना मैनाठेर मुरादाबाद

मु०असं० 700/2022 धारा 392/411 थाना मझोला मुरादाबाद

मु०असं० 1028/2022 धारा 392/411 भा०द०वि थाना मझोला मुरादाबाद

मु०असं०-10/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मझोला मुरादाबाद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1. श्री धनंजय सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ।
2. एसओजी प्रभारी उ०न० श्री रविन्द्र कुमार मय टीम।
3. उ०नि० श्री अनंगपाल सिंह थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ।
4. उ०नि० श्री जितेन्द्र कुमार थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ।

5. का0 उत्तम बालियान थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ।
6. का0 राहुल अहलावत, थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ।
7. का0 सौरव नैन, थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ।
8. का0 राजबहादुर, थाना मझोला जनपद मुरादाबाद ।